

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली

हौज खास, नई दिल्ली -110016

(औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई)

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

Hauz Khas, New Delhi-110016

(Industrial Research & Development Unit)

No. IITD/IRD/RP03927G/

303914

Advertisement No.: IITD/IRD/047/2021

Dated: 23/02/2021

Applications from Indian nationals are invited for Project Appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा।

Title of the Project	Next-generation Indoor Communication Networks (NICNet) (RP03927G)	
Funding Agency	Science and Engineering Research Board (SERB)	
Name of the Project Investigator	Prof. Abhishek Dixit [email of PI: abhishek.dixit@ee.iitd.ac.in]	
Deptt./ Centre	Department of Electrical Engineering	
Duration of the Project	Upto:02/03/2023	
Post (s)	Consolidated fellowship / Pay-slab	Qualifications
Project Scientist (01)	Rs. 35,400-37,900-40,400-43,600-46,800-50,000/- p.m. (consolidated)	M. Tech. or equivalent with > 70% (or 7.0 CGPA on the scale of 10) in Electronics and Communication Engineering or Electrical Engineering OR B. Tech. 7-5% (or 7.5 CGPA on the scale of 10) in Electronics and communication Engineering or Electrical Engineering with 3 years experience with NET/GATE* qualification. The previous hands-on experience in the area of optical Communication/optical Networks/ FPGA is preferred. *The requirement of qualifying NET/GATE qualification may be relaxed by the Committee in case of highly meritorious candidates

The candidates who are interested to apply for the above post should download Form No. IRD/REC-4 from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. by e-mail with advertisement No. on the subject line email id: gaurav.pandey@ee.iitd.ac.in or rajsharmaraj91@gmail.com

IIT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) alongwith the online interview details. Only short-listed candidates will be informed for online interview. In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate may contact Prof. Abhishek Dixit at email id: abhishek.dixit@ee.iitd.ac.in

5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के चयन के मामले में उसका वेतन वर्तमान आईआरडी मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा। The last date for submitting the completed applications by e-mail is 09/03/2021 by 5.00 p.m. The shortlisted candidates who are called for interview should bring original certificates (both professional and academic) with a recent passport size photograph at the time of interview.

सहायक कुल्सचिव, आईआरडी

वितरण

- Head of the Deptt./Centres/Units : It is requested that the contents of the Above Advt. be brought to the notice of the staff working in your Deptt./Centre/Unit
- Webmaster, IRD : To put advertisement at IITD website.
- Notice Boards
- Advertisement file
- Prof. Abhishek Dixit, PI, Department of Electrical Engineering
- Copy to Chairperson, DRC/CRC
- Dr. Harshita Bhatnagar, RD Coordinator, (R&D) Wing